

DU Digital Global

CIN: U74110DL2007PLC171939

Date: 18th January 2022

To,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Sub.-: Intimation of Newspaper Advertisement (Published copy of the Notice of EGM/ E-Voting/closure of books of register of members and share transfer books and record date) - under Regulation 30 and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Ref.-: Company Code - DUDIGITAL

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations and, please find attached copies of the Newspaper Advertisement of the Notice calling Extra-Ordinary General Meeting, E-Voting/closure of books of register of members and share transfer books and record date of the Company to be held on Thursday, February 10, 2022 at 1.00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), as published in “ Financial Express” Delhi and Mumbai Edition (English) and ‘Jansatta’ a local Delhi Edition (Hindi) on January 18, 2022.

The above information is also available on the website of the Company at www.dudigitalglobal.com.

This is for your information and records.

Thanking you,
Yours faithfully,

For DU Digital Technologies Limited

Abhishek
Company Secretary & Compliance officer

DU Digital Technologies Limited

REGISTERED ADDRESS: C-4, SDA COMMUNITY CENTRE, HAUZ KHAS, NEW DELHI, DELHI- 110016

Mail: cs@dudigitalglobal.com Contact No: 011-40450533

इंडियन बैंक

Indian Bank

Demand Notice

अल्लाहाबाद ALLAHABAD

Zonal Office, 55 The Mall, Meerut Cantt

I/being an Authorised Officer of the Secured Credit Bank has a reason to believe that all of you the under mentioned notice can not be served ordinarily as attempted earlier except this substituted service. As such, all of you the under mentioned notices are hereby informed and called upon through this public **DEMAND NOTICE** under section13(2) of the SARFAESI Act with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule 2002 make payment of the amount due against each of you, as mentioned below, within 60 days. Thereafter the bank will proceed U/s 13 (4) of the said Act for taking possession of the secured property/ies/ Assets mentioned against account and thereafter to sell the same to realize its dues with further interest till realization along with costs as contemplated under the said Act. **Needless to mentioned here that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to bank for recovery of its dues, against you.**


Name of the Borrower/ Guarantor and Address & Account No.	Details of Security / Property	Date of Demand Notice
1. Shri Zulfukar S/o Shri Ali Hasan (Borrower/Mortgagor)	A residential house, West facing, measuring East side 15 feet, West side 15 feet, North 30 feet and South side 30 feet, total measuring area 41.82 M or 50.00 Yd, bearing khasra no. 277, situated at Residential Block, Shamli, 247776.	30.12.2021
2. Smt. Ishrat W/o Shri Zulfukar (Borrower)	1. Nai Basti, Mohalla Pansariyan, Shamli, Distt. Shamli- 247776.	Date of NPA: 26.11.2019
2. Village+Post office Jaula, Tehsil Budhana, Distt. Muzaffarnagar.	Bounded as under: East: Plot of Fojji, West: Road 15 feet wide North - Plot Munnai Lal at present Plot Saharanpur Walo Ka South : House of Ravi Kumar	Date of Sending Demand Notice by Regd. Post: 06.01.2022
	Owner/Title holder Shri Zulfukar S/o Shri Ali Hasan Ro Village+Post office Jaula, Tehsil Budhana, Distt. Muzaffarnagar,	Date of Return of Demand Notice (Registered) : 15.01.2022
		Amount due as per Demand Notice
		Rs. 19,93,356.00
		+ future Interest and Costs etc as on 29.12.2021

Account No. 6767118994 with Indian Bank, BHAJJ Branch

Dated: 17.01.2022

Place: Meerut

Authorised Officer



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

POSSESSION NOTICE
(For immovable property)

Whereas the under signed being the Authorised Officer of **Bank of Baroda** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notices, calling upon the following borrowers and guarantors to repay the amount mentioned in the notice, with interest compounded monthly rests within 60 days from the date of said notice.

The borrower/mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the below mentioned borrowers/mortgagors and the public in general, that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 of the said rule on the dates as mentioned below. The borrower/guarantors/ mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the properties will be subject to the charge of **Bank of Baroda** for the amount/liability and interest and other expenses thereon due from the borrowers/mortgagors as mentioned here in below. The Borrower's attention is invited to provision of sub section (8) of Section 13 of the act in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sl. No.	Name & Address of the Borrower & Guarantor Date of Demand / Possession Notice	Description of immovable/movable property	O/s Amount (Rs.)
Raniganj Branch- Vill & Post- Raniganj, Distt- Amethi, U.P.- 227816, Mob: 7752883841			
1.	Borrower: M/s Shree Bhagwati Food Products Prop. Late Mrs. Ramavati Devi W/o Mr. Suresh Chand Through Legal Heirs: 1. Mr. Suresh Chand S/o Late Mr. Bhagwati Prasad, 2. Mr. Sandeep Kumar, 3. Mr. Pradeep Kumar both S/o Mr. Suresh Chand all R/o Vill- Jamon, Post- Jamon, Tehsil- Musafirkhana, Block: Jagdishpur, Distt- Amethi, U.P. Demand Notice: 16.08.2021 Possession Notice: 15.01.2022	(1) Hypothecation of Plant & Machinery. (2) EM of Residential Land and Building Plot No. C 166 area: 250 Sq.Mtr. situated at Industrial Area Uetwa Village- Uetwa, Tehsil- Musafirkhana, Distt- Amethi. Owner: Mrs. Ramavati W/o Mr. Suresh Chand. Bounded by:- East: Plot No. C-155; West: Plot No. C-167; North: 18 Mtr wide road; South: Plot/ Building C-154	Rs. 14,24,066.45 + interest + other Charges w.e.f. 10.08.2021
2.	Borrower: M/s Mata Maharani Handloom Bhandar Prop. Mr. Lal Jee S/o Bhanai Add: Vill- Raniganj, Post- Raniganj, Tehsil- Musafirkhana, Block: Jagdishpur, Distt- Amethi, U.P. Guarantor: Mr. Ajay Singh S/o Mr. Krishna Kumar Singh R/o Vill- Prem Garh, Post- Raniganj, Pargana- Jagdishpur, Tehsil- Musafirkhana, Distt- Amethi, U.P. Demand Notice: 08.06.2021 Possession Notice: 15.01.2022	(1) Hypothecation of Plant & Machinery. (2) EM of Residential Land and Building of Plot No. 393 M, area: 0.005 Hect. , situated at Village- Daulatpur Lanhath, Pargana- Jagdishpur, Tehsil- Musafirkhana, Distt- Amethi. Owner: Mr. Lal Jee S/o Bannai. Bounded by:- East: Land of Raj Kumar; West: Link Road-Raniganj to Pure Madkiyan Marg; North: Land of Mr. Aslam; South: Land of Babulal.	Rs. 12,15,814.86 + interest + other Charges w.e.f. 24.05.2021
Date: 18.01.2022; Place: Amethi <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Authorized Officer, Bank of Baroda Authorized Officer, Bank of Baroda </div>			

BDR BUILDCON LIMITED CIN- L70100DL2010PLC200749 Regi. Office- 31, Jangpura Road, Bhogal, New Delhi-110 014 Corporate office Address: 21, Main Ring Road, Third Floor, Front portion, Lajpat Nagar- IV, New Delhi-110024 Tel.: 011-2647 7771, Website: www.bdrbuildcon.com, E-mail: info@bdrbuildcon.com				
EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / HALF YEARLY ENDED ON 31st DECEMBER, 2021				
S. No.	Particulars	QUARTER ENDED ON 31.12.2021	NINE MONTH ENDED 31.12.2021	QUARTER ENDED ON 31.12.2020
1	Total Income from Operations (net)	Nil	Nil	Nil
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	9,46,073	27,41,517	8,25,764
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	9,46,073	27,41,517	8,25,764
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary Items)	9,46,073	27,41,517	8,25,764
5	Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	9,46,073	27,41,517	8,25,764
6	Equity Share Capital (Face Value of Re.10/- each)	6,64,50,000	6,64,50,000	6,64,50,000
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year)	2,80,91,560	2,80,91,560	2,51,26,298
8	Earnings Per Share (for continuing and discontinuing period) (FV of Re.10/- each)			
	Basic:	0.14	0.41	0.12
	Diluted:	0.14	0.41	0.12
Notes				
1) The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results for the Quarter ended 31.12.2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange(s) https://www.nseindia.com/merge_iti/ and the listed entity www.bdrbuildcon.com .				
2) The above Audited Financial Results for the quarter ended on 31.12.2021 audited by the Statutory Auditors were taken on record and approved by the Board of Directors in their meeting held on 17.01.2022.				
<div style="text-align: right;"> For BDR BUILDCON LIMITED Sd/- RAJESH GUPTA Managing Director </div>				
Place: New Delhi Date: 17.01.2022				

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES Limited				
Branch Address: 7th Floor, Videocon Tower, Jhandewalan Extension, Block - E, Delhi - 110055				
POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)				
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the said Act") and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, has issued Demand Notices under the said Act , calling upon the following Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the Demand Notices.				
The borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the following borrowers, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession of the mortgaged properties (hereinafter referred to as " Secured Assets ") described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 9 of the said Rules.				
The below mentioned borrowers, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the secured assets and any dealings thereto shall be subject to the charge of the Tata Capital Financial Services Limited , for the amounts mentioned below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date of Demand Notices.				
S. No.	Loan Account Nos.	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s)	Amount & Date of Demand Notices	Date of Constructive Possession
1.	TCFLA037000 0010878943 & TCFLA037000 0011112582 (Restructured Loan Account 21781375)	1. M/s G. LAL ENTERPRISES , Through its Proprietor, 11/E/82E, PRADEEP VIHAR, NAGLA RAMBAL, NEAR MANDI SAMITI, FIROZABAD ROAD, AGRA, UTTAR PRADESH- 282006 ALSO AT: 10/122E, KATRA BAJEEER KHAN, CHEENI KA ROZA, MAHARANI KA MAKAN, AGRA, UTTAR PRADESH- 282010, 2. SATISH KUMAR KASHYAP alias SATISH KUMAR, 3. JAI KISHAN KASHYAP , 4. SUDHA , all r/o, 11/E/82E, PRADEEP VIHAR, NAGLA RAMBAL, NEAR MANDI SAMITI, FIROZABAD ROAD, AGRA, UTTAR PRADESH-282006	Rs.67,19,837/- & 19.10.2021	14.01.2022
Description of Secured Assets/Immovable Properties : ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NUMBER 22, AREA ADMEASURING 133.33 SQUARE YARDS, I.E., 111.48 SQUARE METERS, KHASRA NO.2063, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, SITUATED AT PRADEEP RAM VIHAR, NAGLA RAMBAL, MAUZA NARACH, TEHSIL ETMADPUR AND DISTT. AGRA, UTTAR PRADESH-282006, MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN SALE DEED REGISTERED ON 18.10.2017, EXECUTED IN FAVOR OF SATISH KUMAR. BOUNDED AS: NORTH: ROAD 28 FT WIDE, SOUTH: OTHER, WEST: PART OF PLOT NUMBER 22, EAST: PLOT NUMBER 21				
2.	20711443	1. M/S SHOE HUB, THROUGH ITS PROPRIETOR MS. ANSHU SAHANI , H.NO.49, GROUND FLOOR, DYNAMIC GULMOHAR FLATS, TAJ NAGARI, YOUNA PHASE-2, SECTOR-F, AGRA, UTTAR PRADESH-282001. 2. MS. ANSHU SAHANI , H.NO.49, GROUND FLOOR, DYNAMIC GULMOHAR FLATS, TAJ NAGARI, YOUNA PHASE-2, SECTOR-F, AGRA, UTTAR PRADESH-282001. 3. MR. MANISH SAHANI , H.NO.49, GROUND FLOOR, DYNAMIC GULMOHAR FLATS, TAJ NAGARI, YOUNA PHASE-2, SECTOR-F, AGRA, UTTAR PRADESH-282001. ALSO AT: 49/1, TAJ ROAD, SADAR BAZAR, AGRA-282001	Rs. 4655189.12/- & 22/05/2021	14.01.2022
Description of Secured Assets/Immovable Properties : FLAT NO 49, GROUND FLOOR, DYNAMIC GULMOHAR FLATS, TAJ NAGARI YOUNA PHASE SECOND, SECTOR F, TAJ GANJ WARD, AGRA 282004 MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN SALE DEED REGISTERED WITH THE CONCERNED SUB REGISTRAR OF ASSURANCES AS DOCUMENT NO.1 IN ADDITIONAL BOOK NO 4610, VOLUME NO 5976 PAGES 11 to 38, REGISTERED ON 01/06/2012, PROPERTY BOUNDED AS: EAST : OTHER'S PROPERTY, WEST: ROAD SIDE, NORTH : FLAT NO 50, SOUTH: FLAT NO 48				
Date: - 18/01/2022 Place: - Agra, Uttar Pradesh				
Sd/- Authorised Officer,				
For TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES Limited,				



STATE BANK OF INDIA

STRESSED ASSETS MANAGEMENT BRANCH, FIRST FLOOR, S.C.O. 99-107,
MADHYA MARG, SECTOR 8-C, CHANDIGARH, PHONE NO. 0172-4567165

CORRIGENDUM FOR E-AUCTION SCHEDULED ON 10.02.2022

Public in general is hereby informed by this notice that E -Auction Sale Notice published in newspapers i.e. Financial Express & Jansatta on 09.01.2022 for sale of properties by e-auction which is scheduled on 10.02.2022, out of which auction of properties in account of **BEST FOODS LIMITED - Property No. 3** stands withdrawn from the E-Auction on 10.02.2022 due to some unavoidable reasons. Details as under:

PROPERTY 3:- Residential House No. 808-P (Double Storey), measuring 1022.58 sq. yards (855 sq. meters) situated in Sector-9, Urban Estates, Karnal vide Deed of conveyance no. 8513/1 dated 15.01.2007 in the name of Smt. Shakuntla Devi W/o Sh. Mohinder Pal Jindal. (Symbolic Possession).	RP: Rs. 4.60 Crore EMD: Rs. 46.00 Lakh
--	---

Auction for remaining properties shall be held as per schedule i.e. on 10.02.2022 as already published in notice dated 09.01.2022. All concerned may please note the same.

Date: 18.01.2022	Place: Chandigarh	Authorised Officer
-------------------------	--------------------------	---------------------------

Notice is hereby given that the Certificate(s) for the under mentioned Equity Shares of the Company have been lost / misplaced and the holder(s) / purchaser(s) of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Registered Office within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation.

Folio No.	Name of Shareholder	No of Shares	Distinctive Nos.		Certificate Nos.	
			From	To	From	To
0076392	SHIVE KUMAR	25	5080280	5080284	57984	57984
0076392		08	5080285	5080292	57985	57985
0076392		11	9175480	9175490	155659	155659
0076392		22	10317093	10317114	183378	183378

Dated: 13-01-2022

Venky's India Limited
Venkateshwara House, S. No. 114/4/2,
Pune - Srinhaad Road, Vitthladi, Pune. Maharashtra 411003

Sd/-
[Shive Kumar]

FORM No. - 5 DEBTS RECOVERY TRIBUNAL 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow - 226007	
(Area of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh) SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION	
O.A. No. 165/2017	Date: 07.01.2022
(Summons to defendant Under Section 19(4) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993, read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)	
O.A. No. 165/2017	
BANK OF INDIA	...APPLICANT
VERSUS	
M/S PATEL BRICK FIELD AND ANOTHER	...DEFENDANTS
To,	
<u>Defendants</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. M/s Patel Brick Field, Village-Dadiyamau Post-Trilokpur, Tehsil-Ram Nagar, District-Barabanki through its sole proprietor Sri Baba Deen. 2. Sri Baba Deen son of Shri Bhagu Ram, R/o Village-Preetampur, Post-Trilokpur, Tehsil-Ram Nagar, District-Barabanki. 	
In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in Two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 11.04.2022 at 10:30 A.M. , failing which the application shall be heard and decided in your absence.	
Registrar Debts Recovery Tribunal, Lucknow	

	<h1>SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD.</h1>	
	<p>Registered Office: 5201, Calsonic Aurnum, Jasola District Centre, New Delhi - 110025 CIN - U68901DL2007PLC368027</p>	
	<h2>POSSESSION NOTICE (for immovable property) Rule 8(1)</h2>	
	<p>Whereas</p>	
<p>the undersigned being the Authorised officer of the Shivalik Small Finance Bank er. Shivalik Mercantile Co-operative Bank Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, and in exercise of Powers conferred under section 13(2) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 12.11.2021 for loan A/c No. 100744101804 calling upon the 1. Mr. Mahesh Chand S/o Mathan Singh (borrower/Mortgagor) R/o H.No.-105, Sadak Dadrhi, Village, Dadri, Distt. G.B Nagar, Uttar Pradesh. 2. Shiv Kumar S/o Sh. Bholika Shankar (Guarantor) R/o H.No.-78, Mohan Wali Gali Surajpur, Greater Noida U.P. 201306, 3. Neeraj S/o Sh. Mahesh, (Guarantor) R/o H.No.-105, Sadak Dadrhi Dadri, Village- Dadri, Distt. G.B Nagar, Uttar Pradesh. 203207, and Sunil Rathi S/o Sh. Charan Singh (Guarantor) R/o Nyadar Ganj, Garhi, Dadri, Distt. G.B Nagar Uttar Pradesh. 203207 to repay the amount mentioned in the notice being : 9,04,557/- (Rupees Nine Lakhs Four Thousand Five Hundred and Fifty Seven Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-Borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 13th day of January of the year 2022. The Borrower/Co-Borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Shivalik Small Finance Bank Ltd. for an amount of ₹. 9,04,557/- (Rupees Nine Lakhs Four Thousand Five Hundred and Fifty Seven Only) and interest thereon</p> <p>The Borrowers attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.</p>		
<h3>Description of Immovable Assets/ies</h3>		
<p>Equitable Mortgage on the property: Measuring Area 217 Sq Yards or 191.43 Sq Mtrs Situated at Kharsa No. 271, Suraj Vihar Colony, Kasba Dadrhi, Pargana & Tehsil- Dadri, Distt Gautam Budh Nagar, Registered in revenue records of Bahi No. 1, Jild No- 8990, Page No. 193, 244, Documents No. 23794, Dated- 28-12-2015 in the name of Mahesh Chand S/o Mathan Singh butted and bounded as under-</p>		
<p>Date: 13-01-2022</p>	<p>Sd/- Authorized Officer</p>	
<p>Place: Delhi/NCR</p>	<p>Shivalik Small Finance Bank Ltd.</p>	

DU Digital Global **DU Digital Technologies Limited**
CIN: U74110DL2007PLC171939
REGISTERED ADDRESS: C-4, SDA COMMUNITY CENTRE, HAUZ KHAS,
NEW DELHI, DELHI- 110016
Mail. cs@dudigitalglobal.com Contact No: 011-40450533

Notice of Extra Ordinary General Meeting, E-voting Information and book Closure
NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Member of the Company will be held on Thursday, 10.02.2022 at 1.00 PM through other audio-visual means (OAVM) through Video Conferencing (VC) to transact the businesses as set out in the Notice of EGM in Compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013. MCA circular No.14/2020 dated 08.04.2020, No. 17/2020 dated 13.4.2020, No. 20/2020 dated 5.5.2020 and no.20/2021 dated 08/12/2021, SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12.5.2020, and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15/01/2021 to transact the business set out in the Notice of convening EGM.

In compliance with the said MCA Circulars read with the SEBI Circular's, electronic copies of the Notice of EGM have been sent on 15th January, 2022 to all the members, as on 7th January, 2022, whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of EGM to the Members have been dispensed with vide MCA Circular's and SEBI Circular. The Notice of EGM will also be available on the website of the Company at www.dudigitalglobal.com, website of the Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com and on the website(s) of the stock exchange(s) i.e. NSE Limited at www.nseindia.com, where the Company's shares is listed.

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving EGM Notice by email to cs@dudigitalglobal.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants.

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 3rd February, 2022, may cast their vote electronically on the Special Businesses as set out in the Notice of EGM through electronic voting systems of CDSL. All the members are informed that:

The notice of the EGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of EGM and join the EGM through video conference (VC) or other audio-visual means (OAVM).

1. The Special Businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
2. The remote e-voting shall commence on 7th February, 2022 at 09:00 AM (IST);
3. The remote e-voting shall end on 9th February, 2022 at 05:00 PM (IST);
4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the EGM is 3rd February, 2022 and a person who is not a Member as on the cut off date should treat this Notice for information purposes only;
5. The Register of member and share transfer book shall remain close from 4th February 2022 to 10th February 2022 (both days inclusive).
6. Member, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the Notice of EGM and holding shares as on cut off date may obtain their login ID and password by Sending request to CDSL at helpdesk.evoting@cdsindia.com or company at cs@dudigitalglobal.com. If a member already registered with CDSL for E-voting then he can use his existing Login ID and password

In case of any queries including issues and concerns related to remote e-voting and e-voting during the EGM, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting Manual available at CDSL Website at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail at helpdesk.evoting@cdsindia.com who shall address the grievances connected with facility through e-voting by electronic means or contact CDSL 022-23058738,022-23058542/43 or toll free at 1800225533.

For DU Digital Technologies Limited
Sd/-
Aabishek
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: 15.01.2022
Place: New Delhi



India Shelter
Shelter Care Unit For Kids

इंडिया शेल्टर फाइनैस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : छाटा ताल, प्लॉट-15, सेक्टर-44, इस्टीटयूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122 002
शाखा कार्यालय : बी-3/10, डीके टावर, विमुक्ति चंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010


दाग सूचना

वित्तीय आसित्यों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदारों ने इंडिया शेल्टर फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएसएफसीएल) से ऋण प्राप्त किया था और आईएसएफसीएल को अपने ऋण की समान मासिक किश्तें (ईएमआईज) चुकाने में असफल रहे हैं तथा कि उनका ऋण खाता राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नार्जक आसित की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है। कर्जदारों द्वारा आईएसएफसीएल को अवल संपत्तियाँ बतौर प्रतिभूति उपलब्ध कराई हैं, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। ऋण और कर्जदारों द्वारा आईएसएफसीएल को देय बकाया राशियों का विवरण भी यहां नीचे निर्दिष्ट किया गया है। कर्जदारों/सी और सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अपोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूत लेनदार, आईएसएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित कर्जदारों/सी के विरुद्ध वित्तीय आसित्यों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही आरंभ कर दी है और इस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। यदि निम्नलिखित कर्जदार उनमें से हैं तो सम्पत्ति निर्दिष्ट बकाया राशि सूचना के 60 (साल) दिन के भीतर करने में असफल रहते हैं तो अपोहस्ताक्षरी सरकारी एंकेट की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूत लेनदार को प्रत्यक्ष किसी एक अथवा अधिक राशियों का प्रयोग करेगा, जिसमें प्रतिभूत संपत्ति का कब्जा लेना और उसको बिक्री करना शामिल है। सर्वसाधारण को सलाह दी जाती है कि यहां नीचे वर्णित संपत्तियों के संबंध में संयवहार नहीं करें।

क्र. सं.	कर्जदार(सी)/गारंटर/कानूनी वारिस / कानूनी प्रतिनिधि का नाम, ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	प्रतिभूत आसित्यों (अवल संपत्तियों) का वर्णन
1	सपना सिंह एवं सरोज सिंह निवास स्थान : प्लॉट नंबर 128 केएस नंबर 512एफ गिन ग्राम बगधरा सिकंदरपुर परगना बिजनौर तह. सरोजिनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226 023 ऋण खाता सं.: CHL100005562	1. 21-10-2021 2. ११-०३-२०३३.३६३/- (रुपए चार लाख बत्तीस हजार तीन सौ तिरहठ तथा पैसे बत्तीस मात्र) 31-10-2021 तक बकाया + 01-11-2021 से मुगलान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत	सम्पत्ति के समी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉट नंबर 128 केएस नंबर 512एफ गिन ग्राम बगधरा सिकंदरपुर परगना बिजनौर तह. सरोजिनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226 023 पुरख : मकान नंबर 188, पश्चिम : 20 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : मकान नंबर 127, दक्षिण : मकान नंबर 129
2	शंकरा देवी एवं शैलेंद्र कुमार निवास स्थान : मांमि मन्ता रायबरेली रोड, सरोजिनी नगर, ए.एस.जी.पी.जी.आई लखनऊ-226 014, उत्तर प्रदेश, एम.पता : प्लॉट ए-8, केएस नंबर 1007, 1008 एवं 1040 से 1042, राई इंडाईमपुर डिस्ट्रिक्ट हेतुपुर मण्डला, तह. सरोजिनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226 014 ऋण खाता सं.: CHL100004355	1. 14-07-2021 2. ११-०३-२०३३.३६३/- (रुपए चार लाख सेतालीस हजार पांच सौ सैतीस तथा पैसे चौबीस मात्र) 31-07-2021 तक बकाया + 01-08-2021 से मुगलान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत	सम्पत्ति के समी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉट ए-8, केएस नंबर 1007, 1008 एवं 1040 से 1042, राई इंडाईमपुर डिस्ट्रिक्ट हेतुपुर मण्डला, तह. सरोजिनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226 014, पुरख : प्लॉट नंबर ए-2, पश्चिम : 20 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : प्लॉट नंबर ए-9, दक्षिण : प्लॉट नंबर ए-7
3	दीक्षा पांडे एवं मुकुंश पांडे निवास स्थान : प्लॉट नंबर 13 खसरा 183-184, प्रेमबाग कालोनी, शाहपुर मंडीरासी चिह्नेट लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226 028 ऋण खाता सं.: HL11 CHLONS000000508019	1. 09-08-2021 2. ११-०३-२०३३.३६३/- (रुपए आठ लाख सतासी हजार तीन सौ उन्चास तथा पैसे बौरह मात्र) 31-08-2021 तक बकाया + 01-09-2021 से मुगलान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत	सम्पत्ति के समी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉट नंबर 13 खसरा 183, 184, स्थित शाहपुर परगना लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226 028 पुरख : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : विक्रेता का प्लॉट, उत्तर : 20 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : विक्रेता का प्लॉट

स्थान : लखनऊ
तिथि : 18-01-2022

इंडिया शेल्टर फाइनैस कार्पोरेशन लिमिटेड
(प्राधिकृत अधिकारी)

	बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank	Regional Office- Samarth Complex, Opp. C.A.R.I. Gate, Munshinagar, Bareilly 243122, Tel.: 0581-2315189, Fax: 0581 - 2315139	POSSESSION NOTICE	
POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)				
<p>Whereas, the undersigned being the authorised officer of the Baroda U P Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest, Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) & 13(2) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notices calling upon the under mentioned borrowers/guarantors to repay the amount mentioned in the notice with further interest expenses and other charges, etc. thereon within 60 days from the date of said notice.</p> <p>The borrowers/guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 9 of the said rules on this 03.06.2016.</p> <p>The borrowers/guarantors is particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property will be subject to charge of the Baroda U P Bank of amount mentioned in the notice with further interest, expenses and other charges etc thereon.</p>				
ACCOUNT WISE FULL DESCRIPTION AS UNDER:				
Sr. No.	Name of Addressee of The Borrowers.	Description of Property	Date & Amount Demanded Section 13(2)	Date of Possession Notice
1.	M/s Kajal Enterprises Prop. Mr.Ankit Joshi S/o Mr. Satya Prakash Joshi & Mr. Ankit Joshi S/o Mr. Satya Prakash Joshi R/o Sanjay Nagar, Behind Trimurti Bhawan, Near Mukhiya General Store Tehsil & Distt. Bareilly. Branch-Koharapeer. A/c.No-55990400000241.	Residential property, measuring 33.44 sq.mt, situated at Part of Khasra No.1273 min. Village- Biharnam Nagla, Tehsil & Distt. Bareilly. Owner :- Mrs. Moni Joshi W/o Mr. Ankit Joshi R/o Sanjay Nagar, Behind Trimurti Bhawan, Near Mukhiya General Store Tehsil & Distt. Bareilly. Present Boundries: East- House of Mr. Tejpal West- House of Mr.Pradeep, North- House of seller, South-Rasta 4 feet wide.	04.10.2021. Rs. 1,62,032/- as on 20.09.2021 (Inclusive of Interest upto to 20.09.2021).	13-01-2022
2.	Mr. Sonu S/o Umashanakar R/o 21, Bakarganj, Gausala ke pas, Shivmandir Teh & Distt. Bareilly. Branch-Koharapeer. A/c.No-55990400000245.	Residential House, measuring 36.79 sq.mt, situated at House No. 276/83 B, Mohalla Bakarganj, Tehsil & Distt-Bareilly Owner :- Mr. Sonu S/o Umashanakar R/o 21, Bakarganj, Gausala ke pas, Shivmandir Teh & Distt. Bareilly Present Boundries: East- Rasta 4 feet wide West- House of Mr. Shyam Lal North-House of Mr. Swaroopi, South- House of Mr.Nathu.	21.10.2021. Rs. 2,71,423/- as on 30.09.2021 (Inclusive of Interest upto to 30.09.2021).	13-01-2022
3.	Mr. Shakir Khan S/o Mr. Sabir Raza Khan R/o 117, Partapur Chaudhery, P.O-Izzat Nagar, Distt.-Bareilly. Branch-Koharapeer. A/c.No- 55990600000626.	House property, measuring 451.50 sq.mt, (Part of khasra No. 313 Mi. 314 Mi. 345/2 & 350/2 situated at Vill. Faridapur Chaudhery, The & Distt. Bareilly. Owner:- Mr. Shakir Khan S/o Mr. Sabir Raza Khan R/o 117, Partapur Chaudhery, P.O. Izzatnagar, Teh. & Distt. Bareilly Present Boundries: East- Rasta 30 feet wide West- Rasta kaccha 12 feet wide North- Plot of Mohd. Miyan & Plot of others South- Mazar & Property of Haneef Khan & Property of Sharif Khan.	29.08.2019. Rs. 9,89,344/- as on 29.06.2019 (Inclusive of Interest upto to 31.03.2019).	13-01-2022
4.	Mr. Moinuddin S/o Mr. Raeesuddin R/o 212, Peerbahora, Post-Izzatnagar, Teh. & Distt. Bareilly 243122. Branch-Peerbahora. A/c.No- 55680400000305.	House property measuring 83.61 sq.mt, Situated at (land built on part of khasra no. 212), Peerbahora, Teh. & Distt. Bareilly Owner:- Mr. Shafiquddin S/o Mr. Raeesuddin, R/o 212, Peerbahora, Post-Izzatnagar, Teh. & Distt. Bareilly. Present Boundries: East- Rasta 15'wd West-House of Mona, North- House of Owner, South-House of Nawab ali & Himakat Ali.	11.10.2021. Rs. 2,15,305/- (Inclusive of Interest upto to 30.09.2021).	13-01-2022
5.	M/s. Pankaj Mobile Accessories, Prop. Mr. Pankaj Khandelwal & Mr. Pankaj Khandelwal S/o Mr. Ajai Kumar R/o 106 Parwana Nagar, Near Nasir Ki Dairy Post- Izzatnagar Tehsil & Distt-Bareilly UP Pin-243122. Branch- Bareilly Main. A/c.No-56700400000445.	House property, measuring 82.08 sq.mt, (land built on land of Plot no. 106 & part of Plot No. 105) situated at Comrade H.L. Parwana Nagar, Bihar Maan Nagla, Post-Izzatnagar Teh & Distt. Bareilly. Owner :- Mr. Pankaj Khandelwal S/o Mr. Ajai Kumar, R/o 106 Parwana Nagar, Near Nasir Ki Dairy, Post- Izzatnagar Tehsil & Distt-Bareilly UP Pin- 243122, Present Boundries: East- House of Ajay Saxena, West- House of Amit Gangwar, North-House of Lokesha Gangwar South- Road 30'-0'wd.	04.10.2021. Rs. 11,16,630/- as on 30.09.2021 (Inclusive of Interest upto to 30.09.2021).	15-01-2022
6.	M/S Fashion Key Prop. Mr. Hasan Khan & Mr. Hasan Khan S/o Mr. Hasan Miyan, R/o 74, Surkha, Near Vinod Soap Factory, Bankhana, Koharapeer, Tehsil & Distt.-Bareilly-243003. Branch- Bareilly Main. A/c.No- 56700400000451.	House property, measuring 543.46 sq.mtr, situated at Part of Khasra No. 268mi, Rehpora Chaudhary, Teh. & Distt. Bareilly. Owner :- Mr. Kishore Kumar S/o Mr. Ram Bharosey Lal & Mr. Mohsin Khan S/o Mr. Hasan Miyan R/o Village Kuwan Danda Dhimi, Post Dhorma, & 74A, Surkha, Post Qila, Teh & Distt.-Bareilly-243003. Present Boundries: East- Aarazi Wai, West- Raasta Sarkar Rehpora Road 40 feet wide, North- H/o Dr. Lalta Parsad & others, South- Aarazi Anokhi Begam & Others.	14.01.2021. Rs. 15,06,322/- as on 28.02.2019 (Inclusive of Interest upto to 28.02.2019).	15-01-2022
7.	Mr. Munna S/o Abdul Karim R/o 108, Chaudhary Talab, Po-Qila Tehsil & Distt-Bareilly 243003. Branch- Bareilly Main. A/c.No- 567006000001210.	House property, measuring 140.20 sq.mt, situated at (Part Of Khasra No 804), Surkha Chhawani (Eastern side of Hartman-Kodesia Crossing) Par.Teh & Distt- Bareilly. Owner :- Smt. Ramjano W/o Abdul Kareem R/o H.No 88, Near Srikanth Poly Clinic, Chaudhary Talab & Bankhana Teh & Distt- Bareilly Pin- 243003, East- H/o Aslam S/o Eddo, West- Rasta 10'wd, North- Dairy Slam Phelwam, South- H/o Musamat Khatoon.	11.11.2021. Rs. 17,39,164/- as on	

OSBI
Networking & Communication Department, State Bank of India,
Global IT-Centre, Sec-11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400614

CORRIGENDUM

Please refer to RFP No.SBI/GITC/NW&C/21-22/814 dated 23.12.2021 for procurement of 4G LTE Connectivity for Offsite ATMs. Corrigendum dated 17.01.2022 can be accessed under Procurement news at Bank's website <https://www.sbi.co.in> or <https://bank.sbi> or e-Procurement agency portal <https://etender.sbi/SBI/>

Place: Navi Mumbai Sd/- Deputy General Manager
Date: 18.01.2022 (Networking & Communication Dept.)

CLASSIFIEDS

BUSINESS

BUSINESS OFFERS

Export Quality Cotton
Fabric for Sale. Contact
9787804613.

0050190467-1

IMPORTANT

utmost care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any notices or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI

Sanjeev Communication
Fori. Phone: 40024682/ 40792205.

S. Arts Advt.
Masjid. Phone: 23415111

Taj Publicity Services,
Bavla (W). Phone: 2305 4894.
Mobile: 9892011371.

Yugranthra Advertising,
Girgaon. Phone: 2386 8065.
Mobile: 9869074144.

Aaryan Publicity
Dadar (E). Phone: 022-65881876
Mobile: 932011876

B. Y. Padhye Publicity Services,
Dadar (W). Phone: 2422 9241/
2422 0445.

DATVEY Advertising,
Duty Bhavan, Dadar (W).
Mobile: 8452846979/ 930949817

Hook Advertisement
Dadar. Phone: 869180888

Central Advertising Agency,
Mumbai (W). Phone: 24468656 / 24465555

Charudatta Advertising,
Mumbai (W). Phone: 24214461

Jay Publicity,
Dadar (E). Phone: 2412640

Pallavi Advt.
Dadar (W). Phone: 9869109765
Mobile: 9869131962

Shree Swami Samarth Advertising,
Dadar (W). Phone: 24440631
Mobile: 9869131962

Stylus Arts,
Dadar (W). Phone: 24304897

Time Advertising,
Dadar (W). Phone: 2446 6191

Vijaya Agencies,
Dadar (W). Phone: 2422 5672
Mobile: 992064069

Media Junction,
Mumbai (W). Phone: 022-66393184/ 022-6632340
Mobile: 9820295353/ 9821656198

Achivars Media
Bandra (W). Phone: 22691584

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act), read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules), in exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorized Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL), formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.), has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Name of the Borrower(s)/ Guarantor (s)	Demand Notice Date & Amount	Description of secured asset (immovable property)
Mrs. Pooja Gausankar Roy, Mrs. Sunita Ashok Tadake, Tatvi Novelty Stationery And General Store (Prospect No. IL10108817)	13-Jan-2022 Rs. 29,99,949.00/- (Rupees Twenty Lakh Ninety Eight Thousand Nine Hundred Forty Nine Only)	All that piece and parcel of the property being Flat 301/34rd Flr. built-up area measuring 380 Sq. Ft., B Wing Orion Building 1 Thakur Galaxy Complex, Yashwantrao Chavan Road, Opposite Rahul International School, Boisar (West), Boisar, Maharashtra, India, 401501

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For further details please contact to Authorized Officer at Branch Office: IIFL HFL, Shop No. 6, 7, 8, Above Janta Sweet & Dryfruits, Near Big Bazar, Ostwal Empire, Boisar, Maharashtra 401501 or Corporate Office: IIFL, Tower No. 98, Udyog Vihar, Ph-II Gurgaon, Haryana.
Place: Boisar Date: 18.01.2022 Sd/- Authorized Officer, For IIFL Home Finance Ltd

E-AUCTION SALE NOTICE

Sembmarine Kakinada Limited – Under Liquidation

Corporate Office Address: 1st Floor, OSV Complex, Kakinada Deep Water Port, Beach Road, Kakinada- 533007, Andhra Pradesh, India. CIN: U74900AP2009PLC104176

Notice is hereby given under Insolvency and Bankruptcy Code and Regulations thereunder for sale of the Corporate Debtor as a going concern under Regulation 32A, by the Liquidator of **Sembmarine Kakinada Limited** appointed by Hon'ble NCLT Amaravathi through E-Auction Process.

The bidding shall take place through online e-auction service provider Right2Vote at <https://right2vote.in/auction/>.

The details of eligibility criteria and other conditions are provided on company's website <http://skikakinada.com> and interested parties may also send an email to vvk.skiliquidator@gmail.com in case there are any further queries.

The liquidation is expected to start on January 28, 2022 (Thursday) from 11 am to 2 pm with a reserve price of INR 2.43.02.41.546/-.

The Liquidator may in his absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update or amend the eligibility criteria and estimated timelines.

Sd/- Vedagiri Venkata Krishnamurthy
Liquidator

Place: Bangalore Date: 18.01.2022 IP Registration No. IBBIPA-001/IP-P00905/2017-18/11905

इंडियन बैंक Indian Bank

ALLAHABAD

Kandivali East Branch: Laxmi Sadan, Thakur Village, Kandivali East, Mumbai-400017
* Tel. No. (022) 2885 4480 * Fax No. (022) 2885 8312 * e-mail: kandivalieast@indianbank.co.in

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (Under Rule- 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

WHEREAS, the undersigned being the Authorized Officer of the Indian Bank, Kandivali East Branch under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 30.10.2021 calling upon M/s. New Royal Dairy (Prop. Mr. Lalmani Pandey) (Borrower), to repay the amount mentioned in the notice being ₹ 27,21,959/- (Rs. Twenty Seven Lacs Twenty One Thousand Nine Hundred Fifty Nine Only) along with interest and charges within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules, on this 15th of January of the year 2022.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank, Kandivali East Branch for an amount of ₹ 27,21,959/- (Rs. Twenty Seven Lacs Twenty One Thousand Nine Hundred Fifty Nine Only) along with interest and charges thereon from date of demand notice.

The borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section (13) of the Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Flat No. 305, 3rd Floor, Wing C, Gayatri Shivam CHSL, CTS No. 596 to 702 Western Express Highway, Kandivali (E), Mumbai-400101. • Boundaries: • North: - Marve Complex, • South: - Gokul Nagar, • East: - We Highway, • West: - Satyam Bldg

Sd/-
Date: 15.01.2022 Authorized Officer
Place: Mumbai For Indian Bank, Kandivali East Branch

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

This Form G has been issued pursuant to order dated 05 January 2022 passed by the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal whereby the matter is remitted back to the Committee of Creditors of the 13 Videcon group companies (as set out in Annexure I ("CoC")) for completion of the corporate insolvency resolution process in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC"), along with the decision of the CoC in their meeting held on 12 January 2022, to invite fresh expressions of interest for submission of resolution plan for 13 Videcon group companies (as set out in Annexure I) in accordance with IBC and Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 ("CIRP Regulations"). The timelines as stated hereunder are based on model timelines prescribed under Regulation 40 of the CIRP Regulations and remain subject to modification by the CoC, and any extension/ exclusion/ clarification as may be received from relevant NCLT appellate tribunals/courts.

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of the corporate debtor	As set out in Annexure I, being the Corporate Debtors that are currently undergoing consolidated corporate insolvency resolution process
2. Date of incorporation of corporate debtor	Refer Annexure I
3. Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	Refer Annexure I
4. Corporate identity number/limited liability identification number of corporate debtor	Refer Annexure I
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Refer Annexure I
6. Insolvency commencement date of the corporate debtor	Refer Annexure I
7. Date of invitation of expression of interest	January 18, 2022 The detailed invitation for expression of interest dated January 18, 2022 is available at http://www.videoconindustriesltd.com/Consolidated_CIRP/index.aspx
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The eligibility criteria is set out in the detailed invitation for Expression of Interest, accessible at http://www.videoconindustriesltd.com/Consolidated_CIRP/index.aspx
9. Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	These norms are set out in the detailed invitation for Expression of Interest, accessible at http://www.videoconindustriesltd.com/Consolidated_CIRP/index.aspx
10. Last date for receipt of expression of interest	February 02, 2022
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	February 12, 2022
12. Last date for submission of objections to provisional list	February 17, 2022
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	February 27, 2022
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	February 17, 2022 The prospective resolution applicants shall be given access to the virtual data-room platform containing the request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information on executing a Confidentiality Agreement with the Resolution Professional/ Corporate Debtor. Continued access to the virtual data-room and further participation in the process shall be subject to satisfaction of the conditions set out in the detailed invitation for expression of interest and in accordance with Regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016.
15. Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	
16. Last date for submission of resolution plans	March 19, 2022 Resolution plans to be submitted in the manner prescribed in the Request for Resolution Plan document as referred to in point 15 above.
17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional	April 18, 2022
18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	
19. Name and registration number of the resolution professional	Name: Abhijit Guhathakurta Registration No.: IBBIPA-003/IPN00103/2017-18/11158 Name: Abhijit Guhathakurta Registered Address with IBB: Flat No. 701, A Wing, Satyam Springs, CTS No. 272A/21, Off BSD Marg, Deonar, Mumbai City, Maharashtra, 400088, Email: aguhath@hotmail.com
20. Name, Address and email of the resolution professional, as registered with the Board	Communication Address: Deloitte India Insolvency Professionals LLP, One International Centre, Tower 3, 27 th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Maharashtra - 400013, India, Email Id: inrpvl@deloitte.com
21. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	http://www.videoconindustriesltd.com/Consolidated_CIRP/index.aspx
22. Further Details are available at or with	January 18, 2022
23. Date of publication of Form G	

Sd/-
Abhijit Guhathakurta
Resolution Professional of 13 Videcon Group Companies under Consolidated Corporate Insolvency Resolution Process Insolvency Professional - Regn.No.: IBBIPA-003/IP-P00103/2017-2018/11158
Registered Address: Flat No. 701, A Wing, Satyam Springs, CTS No. 272A/21, Off BSD Marg, Deonar, Mumbai- 400 088.
E-mail: aguhath@hotmail.com
Correspondence Address: Deloitte India Insolvency Professionals LLP, One International Centre, Tower 3, 27th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013, India. E-mail: inrpvl@deloitte.com; abhijitg@deloitte.com
For 13 Videcon Group Companies under Consolidated Corporate Insolvency Resolution Process, January 18, 2022

Annexure I	
S. No.	Entity CIN
1	Videcon Industries L99999MH1986PLC103624 08-08-2018 04-09-1986
2	Value Industries Limited L99999MH1986PLC048445 05-08-2018 08-03-1988
3	Videcon Telecommunications Limited U72900MH2007PLC204763 11-06-2018 07-06-2007
4	Evans Fraser and Co. (India) Limited U99999MH1947PLC005708 30-08-2018 23-04-1947
5	Electroworld Digital Solutions Limited U32100MH2003PLC142232 30-08-2018 16-09-2003
6	Sky Appliances Limited U11204MH2004PLC147217 31-08-2018 29-06-2004
7	CE India Limited U13908MH2007PLC171109 14-09-2018 23-05-2007
8	Century Appliances Limited U74210MH1987PLC043731 25-09-2018 12-06-1987
9	Techno kart India Limited U83000MH2003PLC143371 25-09-2018 04-12-2003
10	Techno Electronics Limited U11204MH2007PLC171196 31-08-2018 29-05-2007
11	PE Electronics Limited U32109MH2010PLC198794 31-08-2018 12-01-2010
12	Millennium Appliances India Limited U29308PN1999PLC014301 31-08-2018 3-12-1999
13	Applcomp (India) Limited U29302PN1996PLC104800 25-09-2018 31-12-1996

Public Notice
TRENT LTD.
Bombay House, 24, Horni Mody Street, Mumbai - 400 001.

Notice is hereby given that the Certificate(s) for the undermentioned securities of the company has/have been lost/misaid and the holder(s) of the said securities/ applicant(s) has/have applied to the company to issue duplicate certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company at its Registered Office within 15 days from this date, else the company will proceed to issue duplicate certificate(s) without further intimation.

Name(s) of holder(s) [and Jt. holder(s), if any]	Kind of Securities and face value	No. of Securities	Distinctive Number(s)
Bharati N. Goradia Harshila D. Goradia	Equity F.V. One	740	4337801-4338540

Bharati N. Goradia
Harshila D. Goradia
Name(s) of holder(s)/Applicant(s)

Date: 18.01.2022
Place: Mumbai

HERANSA INDUSTRIES LIMITED
CIN: L24231G/1992PLC017315
Registered Off: Plot No. 1504/1505/1506/1 GDC, Phase-II Vapi, Valsad-366195, Gujarat, India.
Corporate Off: 2nd Floor, A-Wing, Fortune Avirah, Jain Deerasar Road, Borivali-West, Mumbai 400092
Email: compliance@heransa.com Website: www.heransa.co.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended from time to time), Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of **Heransa Industries Limited**, will be held on Saturday, 29th January 2022, by OAVM (Other Audio Visual Means) inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st December, 2021 and to discuss any other matter for the Financial Year 2021-22.

Further, we wish to inform that the company's Trading Window for dealing in securities of the company by Designated Person(s) has already been closed with effect from January 01, 2022 and will remain closed till 4.5 hours from the declaration of unaudited financial results and the same has already been informed.

For further information/updates on this, the investors may visit the Company's website www.heransa.co.in and Stock Exchange's website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Sd/-
Abdul Latif
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 17th Jan 2022
Place: Mumbai

DU Digital Global
CIN: U74110DL2007PLC171939
REGISTERED ADDRESS: C-4, SDA COMMUNITY CENTRE, HAUZ KHAS, NEW DELHI, 110016
Mail: cs@digitalglobal.com Contact No: 011-40450533

Notice of Extra Ordinary General Meeting, E-voting Information and book Closure

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Member of the Company will be held on Thursday, 10.02.2022 at 1.00 PM through other audio-visual means (OAVM) through Video Conferencing (VC) to transact the businesses as set out in the Notice of EGM in Compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013, MCA circular No.14/2020 dated 08.04.2020, No. 17/2020 dated 13.4.2020, No. 29/2020 dated 5.5.2020 and No.20/2021 dated 08/12/2021, SEBI circular No. S.EBI/HO/CFD/CMD/CI/CIR/P/2020/79 dated 12.5.2020, and SEBI/HO/CFD/CMD/CI/CIR/P/2021/11 dated 15/01/2021 to transact the business set out in the Notice of convening EGM.

In compliance with the said MCA Circulars read with the SEBI Circular's, electronic copies of the Notice of EGM have been sent on 15th January, 2022 to all the members, as on 7th January, 2022, whose email IDs are registered with the Company's Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of EGM to the Members have been dispensed with vide MCA Circular's and SEBI Circular. The Notice of EGM will also be available on the website of the Company at www.evotingindia.com, website of the Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com and on the website(s) of the stock exchanges i.e. NSE Limited at www.nseindia.com, where the Company's shares is listed.

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving EGM Notice by email to cs@digitalglobal.com. Members holding shares in demat form can update their email address through their Depository Participants.

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 3rd February, 2022, may cast their vote electronically on the Special Businesses as set out in the Notice of EGM through electronic voting systems of CDSL. All the members are informed that:

The notice of the EGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of EGM and join the EGM through video conference (VC) / other audio-visual means (OAVM).

- The Special Businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting shall commence on 7th February, 2022 at 09:00 A.M. (IST);
- The remote e-voting shall end on 9th February, 2022 at 05:00 P.M. (IST);
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the EGM is 3rd February, 2022 and a person who is not a Member as on the cut off date should treat this Notice for information purposes only;
- The Register of member and share transfer book shall remain close from 4th February 2022 to 10th February 2022 (both days inclusive);
- Member, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the Notice of EGM and holding shares as on cut off date may obtain their login ID and password by Sending request to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or company at cs@digitalglobal.com. If a member already registered with CDSL for E-voting then he can use his existing Login ID and password.

In case of any queries including issues and concerns related to remote e-voting and e-voting through the EGM, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting Manual available at CDSL Website at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com who shall address the grievances connected with facility through e-voting by electronic means or contact CDSL 022-23058738, 022-23058542/43 or toll free at 1800225533

Sd/-
Abhishek
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: 15.01.2022
Place: New Delhi

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS	
1 Name of the Corporate Debtor	KASATA HOMETECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
2 Date of incorporation of corporate debtor	20/07/2009
3 Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC-MUMBAI
4 Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U45202MH2009PTC194229
5 Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Shop No.5 Case Bence Destination Architecture Plot No.45, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra 400614 Principal Place of Business- Site Office, Kaip Nishag-II, Gohi Road, Vadodra, Gujarat-390021
6 Insolvency commencement date of the corporate debtor	11.08.2021 (Copy of order received by IRP on 18.08.2021) 1st Form G was published on 30.10.2021 but the CoC in the meeting held on 11.01.2022 to publish the same again.
7 Date of invitation of expression of interest	18-01-2022
8 Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be obtained by emailing at Email:jb@sbain.in;rp.kasata21@gmail.com
9 Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	details can be sought http://lbi.gov.in/webfront/legal_framework.php (Official website of IBB-Legal Framework-Updated Code)
10 Last date for receipt of expression of interest	02-02-2022
11 Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	12-02-2022
12 Last date for submission of objections to provisional list	17-02-2022
13 Date of issue of final list of prospective resolution applicants	27-02-2022
14 Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	17-02-2022
15 Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	details can be sought by emailing at Email:jb@sbain.in;rp.kasata21@gmail.com
16 Last date for submission of resolution plans	19-03-2022
17 Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Resolution Plan shall be submitted by Electronic mode through Email to jb@sbain.in;rp.kasata21@gmail.com and by sending a hard copy at the address mentioned at point 20
18 Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	18-04-2022
19 Name and registration number of the resolution professional	JUGRAJ SINGH BEDI IBBI/PA-001/IP-P00731/2017-18/11208
20 Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	JSBA House, 1250 Ground Floor Mukherjee Nagar Delhi-110009. Email Id: jb@sbain.in
21 Address and email to be used for correspondence with the Resolution Professional	JSBA House, 1250 Ground Floor Mukherjee Nagar Delhi-110009. Email Id: jb@sbain.in ; rp.kasata21@gmail.com
22 Further Details are available at or with	Email to jb@sbain.in;rp.kasata21@gmail.com
23 Date of publication of Form G	18-01-2021

For KASATA HOMETECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
IBBI/PA-001/IP-P00731/2017-18/11208
Date: 17.01.2022 JSBA House, 1250 Ground Floor Mukherjee Nagar Delhi-110009
Place: Delhi

Motilal Oswal Asset Management Company Limited
Registered & Corporate Office: 10th Floor, Motilal Oswal Tower, Rahimulhuda Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025
• Toll Free No.: 1800 200 6626 • Email: mfservice@motilaloswal.com
• CIN No.: U67120MH2008PLC188186
• Website: www.motilaloswalmf.com and www.mostshares.com

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF THE DESIGNATED SCHEMES

Investors are hereby informed that, on account of limitation of Fund House-wise Overseas Investment exposure in terms of SEBI Circular no. SEBI/HO/MD/IMD-II/DOF3/P/CIR/2021/571 dated June 03, 2021, Motilal Oswal Trustee Company Limited, the Trustees to Motilal Oswal Mutual Fund (MOMF) has decided to temporarily suspend creation of ETF units directly with the Mutual Fund, except otherwise applied by authorized participants, under the Schemes, Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF and Motilal Oswal Q 50 ETF (Designated Schemes) with effect from January 18, 2022.

Further, it may be noted that applications for creation of said ETF units received directly Mutual Fund from any investor including large investors other than authorized participants' post the cut-off timing of January 17, 2022 shall not be accepted and processed.

The aforesaid suspension is temporary in nature and will continue only till further enhancement of limit by Regulators in this regard.

The suspension is not applicable to the redemption applications received by Mutual Fund from any investors including large investors or Authorized Participants in "creation unit" size under the aforesaid Schemes. Further, ETF units continue to trade on the stock exchanges i.e. (NSE and BSE). Investors may trade (buy / sell) ETF units on the stock exchanges.

This Notice cum addendum forms an integral part of the SID and KIM of the Designated Schemes. All other contents remain unchanged.

For Motilal Oswal Asset Management Company Limited
(Investment Manager for Motilal Oswal Mutual Fund)

Sd/-
Navin Agarwal
Managing Director & Chief Executive Officer

Place: Mumbai
Date: January 17, 2022

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
Corporate Office: C-515, Kanakia

